





शुनि विद्यागन्द





# सङ्गल-कुंकुम

मुक्ति विद्यानन्द

•

जैन बुक एजेन्सी

शी० ए. कोणाट व्हेस, नई देहली-१

टेलीफोन : १०६२६-२२, ६४५६

प्रकाशक :

जैन बुक एजेन्सी  
पोस्ट बक्स नं० ११३  
सी० ६, कोनाट प्लेस  
नई देहली-१

A3 (015,17)

K67

6010/05.

प्रथम संस्करण, ३०००

जनवरी, १९६७

## प्रारम्भिक वक्तव्य

मंगलमय जीवन की सभी कामना करते हैं। कामना की प्राप्ति उपाय-चिन्तन से होती है। आज प्रतिक्षण मंगल-विरुद्ध परिणति में लोक-मानस आकंठ मग्न है। भौतिकता के रंगमहल तो ऊँचे से ऊँचे उठ रहे हैं, परन्तु आध्यात्मिक मन्दिरों की नींव के लिए आधार-दिलारों की ग्यूनता प्रतीत हो रही है। आज जन-जनका मन घमन्तोष, चिन्ता, उद्वेग, अभाव इत्यादि आकुलताओं से पीड़ित है। पतिभौतिक जीवन का यह प्रनिवार्य परिणाम है। मनुष्य को शान्ति, गुण तथा निराकुलता पाने के लिए अपने पूर्वजों की श्रौर देवता होगी। भले ही यह विज्ञान की उपलब्धियों के लिए प्राधुनिकता का जूगो रहे। अपनी दैनिकताओं में देवदशन, स्वाध्याय, जप नियमों का ध्रुव परिपानन ही वह पूर्वजों की निधि है, जिसे ग्रहण कर आज

का त्रस्त मानव सुख-शान्ति-लाभ कर सकता है। आध्यात्मिकता का प्रत्येक चरण मंगलमय है। उसी में ऐसे उदात्त तत्त्व हैं जिन्हें पाकर मनुष्य भौतिकता के सम्पूर्ण त्रासदायी तत्त्वों से बच सकता है। विश्व मानव का प्रत्येक सूर्योदय मंगल-कुंकुम से चर्चित हो यही इस लघु-ग्रन्थ का अभिप्राय है। इस सत्प्रकाशन के लिए धर्मनिरागी श्री शान्तिप्रसाद जी (जैन बुक एजेन्सी, दिल्ली) को आशीर्वाद।

---मुनि विद्यानन्द

## मङ्गलकुङ्कुम

ॐकारं विन्दुसंयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।  
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥१॥

प्रविरन्नाद्वयनीयप्रभालितसकलभूतलमलकलङ्का ।  
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हस्तु नो दुरितान् ॥२॥

नमस्तस्यं सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये ।  
विचित्रा लोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते ॥३॥

नमो नृमभसेनादिगोतामान्त-गणेशिने ।  
सुनीलरगुणाढ्याय नर्धरने गुरवे नमः ॥४॥

गुणभक्त्या ययं सार्धद्वीपद्विजयवर्तिनः ।  
वःशामहे त्रिसंन्योननवकीर्तिमुनीश्वरान् ॥५॥



ॐकार के सविन्दु स्वरूप का योगिजन नित्य ध्यान करते हैं । यह ॐकार कामनाओं एवं मोक्ष (उभय) —का प्रदाता है । ॐकार को वारंवार नमस्कार है ॥१॥ भगवती सरस्वती ने अपने निरन्तर वर्षणशील शब्द-वारिद-समूह से समस्त लोक के मालिन्य रूपदुर्लभ को प्रक्षालित कर दिया है । मुनियों ने इसी वाग्देवता द्वारा तीर्थों की उपासना की है । वह देवी शारदा हमारे दुरितों को दूर करे ॥१॥ विमलज्ञान की साक्षात् मूर्ति उस सरस्वती को नमस्कार है, जिसकी अनुकम्पा से यह अद्भुत संसार-यात्रा चल रही है ॥३॥ उत्तम मूलगुणधारी वृषभसेन तथा गौतम गणधरों से सेव्यमान समस्त गुरुओं को नमस्कार है ॥४॥ हम गुरुभक्ति से अढाई द्वीपों में निवास करने वाले त्रिसंख्यान्यून नवकोटि मुनीश्वरों की वन्दना करते हैं ॥५॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥६॥

श्रीपरमगुरवे नमः । परस्परचार्यगुरवे नमः । सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसाम्परिवर्द्धकं सद्धर्मप्रवर्तकं भव्यजीवमनःप्रबोधकारकमिदं शास्त्रं पुण्यप्रकाशनं पापप्रणाशनं श्री.....नामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्त्तारः

श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्त्तारिः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां  
वचोऽनुसारमासाद्य श्री.....आचार्येण विरचितं ग्रन्थमिदं मंगलं भूयात् ॥

अज्ञान तिमिर से लोक अन्ध सदृश हो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता । गुरुदेव  
ज्ञान-रूप अंजनशलाका (कज्जल की सलाख) लेकर उनके लोचनों को आँजते हैं,  
उन्मीलन करते हैं । उन लोकोपकर्त्ता गुरुदेव के चरणों में नमस्कार हो ॥६॥  
श्री परम गुन को नमस्कार है, परम्पराप्राप्त आचार्य गुरु को नमस्कार है । यह  
शास्त्र सम्पूर्ण पापों का विध्वंसक, कल्याण की वृद्धि करनेवाला, सम्यक् धर्म में  
प्रवृत्तिकारक, भव्य जीवों के मन में प्रबोध के सूर्योदय जगाने वाला, पुण्य (उपादेय  
ज्ञान) का प्रकाशक तथा पाप (हेय ज्ञान) का प्रणाल करनेवाला श्री...शुभ नाम  
धेय है । उसके मूलकर्त्ता श्री सर्वज्ञदेव हैं, उत्तर ग्रन्थकर्त्ता श्री गणधरदेव हैं—  
प्रति गणधरदेव हैं । उनके मूल वचनों का अनुसरण कर श्री...नाम आचार्य ने इस  
ग्रन्थ की रचना की है । पाठकों का मंगल हो ।

मंगलं भगवानर्हन् मंगलं भगवान् जिनः ।  
 मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं वृषभेश्वरः ॥७॥  
 मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।  
 मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥८॥

भगवान् अर्हन्त देव मंगल है, भगवान् जिनेश्वर मंगल है, प्रथम आचार्य मंगल  
 है और भगवान् वृषभनाथ मंगल है ॥७॥ भगवान् महावीर मंगल है, गौतम गणधर  
 मंगल है, आचार्य कुन्दकुन्द मंगल है और जैन धर्म मंगलमय है ।

## श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु

श्रोता सावधान होकर सुनें

विशेष टिप्पणी—(मंगल की आवश्यकता) किसी भी शुभ कार्य का आरम्भ मंगल पाठ से ही किया जाता है यह भारतीय संस्कृति-परम्परा है। मंगल से आरम्भ किये हुए कार्य में विघ्न नहीं होते—यह शास्त्र-सम्पत्ति असिद्ध नहीं है। क्योंकि यदि शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मक्षय स्वीकार नहीं किया जाएगा तो अन्यथा उनका क्षय होगा ही नहीं। 'कपाय पाहुड़' के मंगल-विचार प्रकरण में यही प्रतिपादित करते हुए लिखा गया है—'मंगलं हि कीरदे पारद्धकज्जविघयारकम्मविणासणट्ठं। तं च परभागमुंजोगादो चैव णस्सदि। ण चेदमसिद्धं। सुह सुद्ध परिणामे दि कम्मवत्तयाभाये तवत्तयाणुवत्तीदो ॥' श्री देवसेनाचार्य ने 'तत्त्वसार' की श्रुतीकारिका में लिखा है कि अक्षर रूप का ध्यान करते हुए भव्यों को बहुत पुण्यवन्ध होता है और उस पुण्यवन्ध-परम्परा से मोक्ष होता है। यथा—

‘तेति अक्खररूवं भवियमणुत्साण भायसाणाणं ।  
 वज्झइ पुण्णं न्हुसो परंपराए हवे मोक्खो ॥’

## कन्नड़ भाषा में प्रारम्भ-संगल

परम परंज्योति कोटिचन्द्रादित्यकिरणसुज्ञान-प्रकाश ।  
सुरसुकुटमणिंरंजितचरणब्ज शरणागु प्रथमजिनेश ॥१॥

सिद्धर सततविशुद्धरबोध समृद्धर नेनेदु नानीग ।  
सिद्धरसदोलु लोहवनद्वि दंतात्म सिद्धिय पडेवे निन्नेनु ॥२॥

व्यवहार-निश्चयन्नरिदु तम्मात्मतत्त्ववन्नेमि निजव साधिसुवा ।  
नवकोटि मुनिगलु भूवरिल्लेनलुं टवरिगलिगेर गुवेनु ॥३॥

परब्रह्मत्रिभुवनसारचिदंबर पुरुष निरंजन सिद्धा ।  
दुरितं जय हंसनाथ तमो तमोगुरवे प्रत्यक्षवागेनगे ॥४॥

विन्नह गुरवे ध्यानके वेसरा दाग निन्नादिय माडिकोंडु ।  
कन्नड़दौलगोंडुं कथेय पेलुवेनडु निन्नाज्ञे कंडानन्नोडेया ॥५॥

अथ—हे प्रथम जनेश ! आपका दीप्तमान प्रकाश सुज्ञानमय है और काटि-  
 कोटि चन्द्र तथा सूर्यो की पुंजीभूत तेजोराशि के सदृश है। आपके चरणारविन्दों  
 में समस्त सुर तथा सुरेन्द्र आकर (उपस्थित होकर) अपनी-अपनी मुकुटमणियों  
 को स्पर्शित कर वन्द्य होते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ ॥१॥

जिन प्रकार सिद्धरस (गोधित पारद रसायन) के सम्पर्क से लोहा भी सुवर्ण-  
 परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार मैं भी सदा परिशुद्ध एवं केवल ज्ञानशाली सिद्धों  
 का चिन्तन करते-करते आत्मसिद्धि को प्राप्त करूँगा ॥२॥ मैं देव, गुरु और शास्त्र  
 में श्रद्धानरूप व्यवहार तथा एकमात्र आत्मा को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र परपदार्थमय  
 निश्चय रखते हुए इसी लोक में अलौकिक रूप से रहकर अपने आत्मा में दृढ़  
 श्रद्धान रखते हुए तीन कम नवकोटि मुनीश्वरों के चरण कमलों में प्रणाम करता  
 हूँ ॥३॥ हे परम गुरो ! आप सहजानन्द परब्रह्मस्वरूप हैं, त्रिभुवन में साररूप हैं,  
 अमन्त ज्ञान सम्पन्न एवं चिदम्बर हैं, पुरुष (आत्मरूप) हैं तथा अष्टकर्म नष्ट कर  
 निरंजन-सिद्ध पद को प्राप्त हैं। आप दुरितों पर विजय प्राप्त करनेवाले तथा हंस  
 हैं। (हम सब अमुक्त जीव तो आत्मावस्थित न होने से कर्म के खिलीने हैं) हे  
 देव ! आपको अनन्त वार नमोऽस्तु। आप मुझे प्रत्यक्ष हों ॥४॥ हे परम गुरो ! मैं  
 जिन समय शुभोपयोग में प्रवृत्त होता हूँ तब आपको ही ध्यानस्थित करके कर्णाटक  
 भाग्य में उपदेश करता हूँ ॥५॥

## अन्त्य संगल

ई जिन कथेयनु केलिदवर पापबीजनिनशिन बहुडु ।  
तेज बहुडु पुण्यबहुदु मुँदोलिदप राजितेश्वर काणुवरु ॥१॥  
प्रेमदिदिद नोदिदरे पाडिदरे केल् दामोद वैदु दवरवरु ।  
नेमदि सुररागि नाले श्रीमंदरस्वामीय काण्वरतियोलु ॥२॥

अभिमतसिद्धिदायक योगिनायक उभयलावण्यवरेण्य ।

प्रभेतोरु तेन्नान्त रंगदोलिरु बोधविभुवे चिदम्बर पुरुषा ॥३॥

जिनेन्द्र भगवान् की इस कथा को सुननेवाले भव्य जीवों के पापबीज का विनाश होगा और तेज तथा पुण्य की वृद्धि होकर वह अपराजित पद को प्राप्त होगा ॥१॥ इस कथा को रुचिपूर्वक पढ़ने से तथा स्तुति को सुनने से भव्य जन आनन्द तथा शान्ति को प्राप्त कर श्रीसीमंदर स्वामी को देखेंगे ॥२॥ हे अभिमत सिद्धिदायक ! सम्पूर्ण योगियों के नायक ! उभय सिद्धि को प्राप्त करने वाले लावण्ययुक्त प्रभो ! आप मेरे अन्तरंग में ज्ञान-प्रभा का संवर्द्धन करते हुए मेरी बुद्धि का विकास करते रहें ॥३॥

# मंगल-आरती

(पण्डित श्री दानतरायजी कृत)

१

मंगल आरति आत्मराम  
तन मन्दिर मन उत्तम ठाम  
समरस जल चन्दन आनन्द  
तन्दुल तत्त्वस्वरूप अमन्द

२

समयसार फूलन की माल  
अनुभव सुख नेवज धरि थाल  
दीपक ज्ञान ध्यान की धूप  
निर्मल भाव महाफल रूप

३

शुभुग भविकजनक रंगलीन  
निहृद्यै नवधा भक्ति प्रवीण  
धुनि उतसाह सुअनहद गान  
परम समाधि निरत परिधान

४

वाहिज आत्म भाव बहाँवै  
अन्तर ह्वै परमात्म ध्यावै  
साहव-सेवक भेद मिटाय  
'दानत' एकमेव हो जाय



# लाघु-नित्यपाठ-संग्रहः

णमोक्कार मंत्र

ॐ णमो अरहंताणं

णमो सिद्धाणं

णमो आयरियाणं

णमो उवज्जायाणं

णमो लोए सब्ब साहूणं

एसो पंच णमोयारो सब्बपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सब्बेसि पढमं हवइ मंगलं ॥१॥

चत्तारि मंगलं

अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलपणत्तो धम्मो मंगलं ।

चत्तारि लोगुत्तमा

अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

चत्तारि सरणं पवज्जामि  
अरहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पव-  
ज्जामि, केवलपणत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

‘आयहि पंचवि गुरवे मंगल चउसरण लोयपरियरिये ।  
णर-सुर-लेचर-सहिए आराहणणायगे वीरे ॥’

---भावपाहुइ, १२४

## मन्दिर-दर्शन

दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भवतापहारि  
भव्यात्मनां विभव-सम्भवभूरिहेतु  
दुग्धाब्धिफेनधवलोज्ज्वलकूटकोटी-  
नद्धध्वजप्रकरराजिविराजमानम् ॥१॥

---दृष्टाष्टकस्तोत्र, १

## स्तुति

सकल ज्ञेय-ज्ञायक तदपि निजानन्द रस-लीन ।

सो जिनेन्द्र जयवन्त नित अरिरज-रहस-विहीन ॥१॥

जय वीतराग विज्ञान-पूर, जय सोह तिमिर को हरन-सूर ।

जय ज्ञान अनन्तानन्तधार, दृगसुख-वीरज मण्डित अपार ॥

जय परमशान्त मुद्रासमेत, भविजन को निज अनुभूति-हेत ।

भवि भागनवश जोगे वशाय, तुम धुनि ह्वै सुनि विभ्रम नशाय ॥

तुम गुण चिंतत निज-पर-विवेक प्रगटै विघटै आपद अनेक ।

तुम जगभूषण दूषण-वियुक्त, सब सहिमायुक्त विकल्प-मुक्त ॥

अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप परमात्म परमपावन अनूप ।

शुभ-अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतिसय श्लीन ॥

अष्टादश दोष वियुक्त धीर, स्वचतुष्टयसय राजत गभीर ।

मुनि गणधरादि सेवत महंत, नव केवल-लब्धि-रमा धरंत ॥

तुम शासन सेय अमेय जीव, शिव गये, जाहि, जैहैं सदीव ।

भवसागर में दुख छार वारि, तारन को अवर न आप टारि ॥  
 यह लखि निज दुख गद हरण काज, तुमही निमित्त कारण इलाज ।  
 जाने तातैं में शरण आय, उचरों निज दुख जो चिर लहाय ॥  
 मैं भ्रम्यो अपनपो विसरि आप, अपनाये विधिफल पुण्य-पाप ।  
 निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट ठान ॥  
 आकुलित भयो अज्ञान धारि, ज्यों मृग मृगतृष्णा जानि वारि ।  
 तन परिणति में आपो चितार, कबहूँ न अनुभवो स्वपद सार ॥  
 तुमको बिन जाने जो कलेश पाये, सो तुम जानत जिनेश !  
 पशु नारक नरसुरगति मैंभार भव धर-धर मर्यो अनन्त बार ॥  
 अब काल लब्धि बल तैं दयाल तुम दर्शन पाय भयो खुशाल ।  
 मन शान्त भयो मिटि सकल द्वन्द्व चाख्यो स्वातमरस दुखनिकन्द ॥  
 तातैं अत्र ऐसी करहु नाथ विछुरै न कभी तुअ चरण साथ ।  
 तुम गुणगण को नहि छेव देव ! जग तारणको तुम चिरद एव ॥  
 आत्म के अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय ।  
 मैं रहूँ आपमें आप लीन, सो करो होऊँ ज्यों निजाधीन ॥

मेरे न चाह कछु और ईश ! रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश !  
 मुझ कारज के कारन सु आप शिव करहु हरहु मम मोह ताप ॥  
 तुम शान्ति करन तम हरन हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल देत ।  
 पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभव तैं भव नशाय ॥  
 त्रिभुवन तिहुँ काल मँभार कोय नहिँ तुम बिन निज सुखदाय होय ।  
 मो उर यह निश्चय भयो आज डुख जलधि-उतारन तुम जहाज ॥

### दोहा

तुम गुणगणमणिगणपती गणत न पार्वीह पार ।  
 'दौल' स्वल्पमति किमि कहै नमूं त्रियोग संभार ॥

### क्षमापनपूर्वक पञ्चाङ्ग प्रणाम

'मोहध्वान्तविदारणं विशदविश्वोद्भासिदीप्तिश्रियं  
 सन्मार्गप्रतिभासकं विबुधसन्दोहामृताऽऽपादकम् ।  
 श्रीपादं जिनचन्द्र ! शान्तिशरणं सद्भक्तितमानौमि ते  
 भूयस्तापहरस्य देव ! भवतो भूयात् पुनर्दर्शनम् ॥'

हे भगवन् जिनेंद्र ! आपके श्रीचरण शान्ति के निवास हैं, मोहान्धकार को विदीर्ण करने वाले हैं, सम्पूर्ण विश्व को उद्भासित करने योग्य दीप्ति श्री से परिलसित हैं, सम्यक्त्वमार्ग के दर्शक हैं, देवसमूह के लिए अमृत प्राप्ति करने वाले हैं और भव्यों की भक्ति के केन्द्र हैं । हे, देव ! (एवं गुणगणविशिष्ट आपके श्रीपाद दर्शन से शान्ति प्राप्त होती है, अतः) तापहारी आपके श्रीचरणों का पुनः पुनः दर्शन—सौभाग्य प्राप्त हो ।

### नित्य जाप्य मंत्र

‘पणतीस-सोत-छुपण-चटु-दुगमेकं च जवहज्झायेह ।

परमेद्विवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥’

परमेष्ठी के वाचक पैंतीस, सोलह, छह, पांच, चार, दो और एक अक्षर वाले मंत्र का प्रतिदिन जाप और ध्यान करना चाहिए ।

१. पैंतीस अक्षरःत्मक मन्त्र—

‘गमो अरहंताणं गमो सिद्धाणं गमो आयरियाणं

गमो उवज्झायाणं गमो लोए सव्व साहूणं ॥’

२. पोंडशाक्षर मन्त्र—

‘अरहंत-सिद्ध-आयरिय-उवज्झाय-साहू ।’

३. षडक्षर मन्त्र— 'अरहंत-सिद्ध'
  ४. पञ्चाक्षर मन्त्र— 'अ-सि-आ-उ-सा'
  ५. चतुरक्षर मन्त्र— 'अरहंत'
  ६. द्व्यक्षर मन्त्र— 'सिद्ध'
  ७. एकाक्षर मन्त्र— 'अ' अथवा 'ओम्'
- सर्वसिद्धि मन्त्र— ॐ हां ह्रीं हूं हौं हः नमः । (प्रतिदिन सहस्र जाप; मासपर्यन्त)

सर्वशान्तिकर मन्त्र— ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा । (प्रतिदिन शतवार जाप)

विशेष टिप्पणी—मंत्र जपने के लिए रत्न, सुवर्ण, सूत अथवा बीजों से बनी हुई माला लेकर वांछित—सिद्धि के लिए निम्नलिखित श्लोक पढ़ना चाहिए ।

'ॐ ह्रीं रत्नैः सुवर्णैः सूतैर्बीजैर्वा रचिता जपमालिका ।  
सर्वजपेषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छतु ॥'

जप करते समय अपने सामने रखे हुए चौकी अथवा पाटे पर केसर

से स्वस्तिक रचना करनी चाहिए तथा उस पर अक्षत (बिना  
टूटे हुए) तण्डुल विकीर्ण करने चाहिए ।

## श्रीमहावीराष्टकस्तोत्रम्

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः  
समं भान्ति श्रौव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः ।  
जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भान्स्वि यो  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥१॥

त्रिनके दर्पण सदृग चैतन्य में उत्पाद-व्यय-श्रौव्य-विवर्तों में अन्तरहित चित्  
श्रीर अचिन् (चेतन एवं अइ) भाव एक साथ विलसित हां रहे है और सूर्य के  
समान जो लोकसाक्षी तथा (सम्यक्चारित्र) —मार्ग को प्रकट करने में तत्पर है  
यह भगवान् महावीर स्वामी मेरे नयनपथगामी (नेत्रों के समक्ष) हों ॥१॥

अतासं यच्चक्षुःकमलयुगलं स्पन्दरहितं  
जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि ।  
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥२॥



जिनके नेत्र (क्रोध-कषाय-रागादिपरिणति से रहित होने से मानो) —अताम्र (श्वेत) कमलपुष्प के युगल प्रतीत होते हैं तथा निष्पन्द हैं। जिन्हें देखकर उनका आभ्यन्तर शुक्लत्व प्रकट होता है और वे (नेत्र) संसार को अक्रोध का शिक्षण करते हैं। जिनकी मूर्ति अत्यन्त विमल तथा प्रशममयी है। वह भगवान् महावीर स्वामी मेरे नयनपथगामी हों ॥२॥

नमन्नाकेन्द्रालीमुकुटमणिभाजाल-जटिलं

लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभूताम् ।

भवज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि

महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥३॥

जिनके शोभायमान चरणकमल युगल प्रणाम करते हुए देवन्द्रों की मुकुट-खचित मणियों की प्रभावों के अतिरेक से जटित हैं और शरीरधारियों की संसाराग्नि को शान्त करने में नीर-सदृश (शीतल) हैं वह भगवान् महावीर स्वामी मेरे नेत्रपथगामी हों ॥३॥

यदचभावेन प्रमुदितमना ददुर इह  
क्षणादासीत् स्वर्गो गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः ।

लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किमु तदा  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥४॥

जिनकी अर्चना करने की भावना रखने वाला, प्रसन्नचित्त दहुर (मेंढक) भी इस लोक में क्षणमात्र काल में मरणोपरान्त गुणों से समृद्ध, सुखनिधि-भोक्ता स्वर्गीय देव हुआ तब यदि भगवच्चरणारविन्द के नित्यभक्त शिवसुख प्राप्त करें तो क्या आश्चर्य ? वह (सद्भक्तों को मोक्षसुख प्रदान करने वाले) भगवान् महावीर स्वामी मेरे नेत्रपथगामी हों ॥४॥

कनत्स्वर्णभासोऽप्यपगततनुज्ञानिनिवहो  
त्रिचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनयः ।  
अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरगोऽद्भुतगति-  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥५॥

वह भगवान् यद्यपि नरीरहित (आत्मस्वरूप, निरंजन-निराकार) हैं तथापि उनका वर्ण दमकते हुए सुवर्ण के समान है । वह ज्ञान के भण्डार हैं । अद्भुत आत्म-नरीररारी और एक हैं, बहिर्तीय हैं (उनके तुल्य अन्य कोई नहीं है) वह नृपति-निरोगणि सिद्धार्थ के पुत्र हैं । वह अजन्मा (पुनर्जन्मरहित) होकर भी श्रीमान् हैं,

मुक्ति श्री-समालिङ्गित है। सांसारिक रागादि से वर्जित है, अद्भुत गति (मोक्षरूप अलौकिक गति) के धारक है। एवंविध गुणगण-गणनीय भगवान् महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के समक्ष होने की कृपा करें ॥५॥

यदीया वाग्गंगा विविधनयकल्लोलविमला  
बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्तपयति ।  
इदानीमप्येषा बुधजनमरालः परिचिता  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥६॥

जिनकी वाणीरूप गंगा अनेक नयों की कल्लोल राशि से विमल है और अपने सर्वज्ञान-सलिल से संसार के जनसमूह को स्नान करा रही है। इस समय भी (भगवान् के मोक्ष-गमन के सहस्रों वर्षों के पश्चात् भी) ज्ञानधनी हंसों के समान उस (दिव्यञ्चनि-गंगा) से परिचित है। वह भगवान् महावीर स्वामी मेरे नयनों के समक्ष होने की कृपा करें ॥६॥

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटः  
कुमारारवस्थायामपि निजबलाद् येन विजितः ।  
स्फुरन्निस्त्यानन्दप्रशमपदराज्याय स जिनो  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥७॥

कामविकार महान् सुभट है । काम के वेग का निवारण महाकठिन है । इसने त्रिभुवन को जीत लिया है परन्तु भगवान् महावीर ने अपनी कुमार अवस्था में ही इस लोकपराभवकारी विकार का दमन कर दिया । काम-विजय करते हुए उन्होंने नित्य आनन्दप्रदाता प्रथमपद (निर्वाण साम्राज्य) को प्राप्त किया । इस प्रकार के अतिवीर भगवान् महावीर कृपया मेरे नयनपथगामी हों ॥७॥

महामोहातङ्कप्रशमनपराकस्मिकभिषड्  
निरापेक्षो बन्धुवित्तमहिमा सङ्गलकरः ।

शरण्यः साधूनां भवभयभूतामुत्तमगुणो  
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥८॥

वह प्राणियों के उग्र मोह राग को शान्त करने में परमभिषक् (उत्तम वैद्य) मगान हैं । अपेक्षार्थित बन्धु हैं (संसार की बन्धुता किसी स्वार्थ की अपेक्षा रखती है) उगकी महिमा विथुन है, वह मंगलकर्त्ता हैं, संसार भय से त्रस्त साधु पुरुषों के शरण हैं तथा उत्तम गुणधारी हैं । वह भगवान् महावीर स्वामी कृपया मेरे नयनपथ-गामी हों ॥८॥

महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या 'भोगेन्दुना' कृतम् ।  
यः पठेच्छृणुयाच्चपि स याति परमां गतिम् ॥९॥

भागचन्द्र ने भक्तिपूर्वक इस 'महावीराष्टकस्तोत्र' की रचना की है। जो  
र सुनीये वे परमगति प्राप्त करेंगे ॥६॥

## बारह भावना

(पं० दौलतराम जी कृत 'द्वह ढाला' से)

भावनाओं के चिन्तन का कारण

नि सकलव्रती बडभागी, भवभोगन तें वैरागी ।  
राग्य उपावन माई, चित्यो अनुप्रेक्षा भाई ॥१॥

चिन्तन का फल

१ चिन्तित समरस जागै, जिमि ज्वलन पवन के लागै ।  
ब ही जिय आतम जानै, तब ही जिय शिवसुख ठानै ॥२॥

अनित्य भावना

बन गूह गोधन नारी, हय गज जन आजाकारी ।  
रीयभोग जिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥३॥

## अत्रारण भावना

सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दले ते ।  
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई ॥४॥

## संसार भावना

चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं ।  
सत्र विधि संसार असारा, यामें सुख नाहि लगारा ॥५॥

## एकत्व भावना

शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगे जिय एकहि तेते ।  
सुत द्वारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी ॥६॥

## अन्यत्व भावना

जल-पय ज्यों जिय-तन मेला, पै भिन्न-भिन्न नाहि भेला ।  
तो प्रगट जुदे धन-धामा, क्योँ ह्वै इक मिलि सुत-रामा ॥७॥

## अशुचि भावना

पल-रुधिर-राध-मल थैली, कीकस वसादितें मैली ।  
नवद्वार बहै धिनकारी, अस देह करै किम यारी ॥८॥

## आस्रव भावना

जो जोगन की चपलाई, तातैं ह्वै आस्रव भाई ।  
आस्रव दुखकार घनेरे, बुधिवंत तिन्हें निरवेरै ॥९॥

## संवर भावना

जिन पुण्य-पाप नहिं कीना, आतम-अनुभव चित दीना ।  
तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोकै ॥१०॥

## निर्जरा भावना

निज काल पाय विधि भरना, तासौं निज काज न सरना ।  
तप करि जो कर्म खिपावै, सोई शिवसुख दरसावै ॥११॥

## लोक भावना

किन हू न करयो न धरै को, षट द्रव्यसयी न हरै को ।  
सो लोकमाँहि विन समता, दुख सहे जीव नित श्रमता ॥१२॥

## बोधिदुर्लभ भावना

अंतिम ग्रीवकलौकी हृद, पायो अनन्त बिरियाँ पद ।  
नर सम्भक् ज्ञान न लाध्यो, दुर्लभ निजमै मुनि साध्यो ॥१३॥

## धर्म भावना

जे भाव सोहतै न्यारे, दूग ज्ञान व्रतादिक सारे ।  
सो धर्म जतै जिय धारै, तव ही सुख अचल निहारे ॥१४॥  
सो धर्म मुनिनकरि धरिये, तिनकी करतूति उचरिये ।  
ताको सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥१५॥

## अर्थ

हे भाई ! पंच महाव्रतधारी मुनि बड़े भावगाली हैं । उन्होंने संसार-भोगों से  
धियाग धारण किया है। उन वैराग्य को उत्तान करने में माता के समान चारह



अनुप्रेक्षाओं का वारंवार चिन्तन करना श्रेयस्कर है ॥१॥ इनके चिन्तन से समत्व की प्राप्ति होती है जैसे अग्नि को पवन ने स्पर्श कर लिया हो । (जैसे प्रज्वलित भी अग्नि पवन-प्रवाह से अधिक प्रचण्ड हो उठती है, वैसे अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन से मन में संकल्प-विकल्प समाप्त होकर समताभाव (समभाव) प्रबुद्ध हो उठता है ।) यह जीव जब आत्मस्वरूप को जान लेता है तभी शिव (मोक्ष) सुख को प्राप्त करता है ॥२॥ यौवन, गृह, गौ—आदि पबुधन, अन्य कांचनादि धन, स्त्री, अश्व, गज, आज्ञाकारी सेवक और इन्द्रियभोग—ये सभी क्षणस्थायी हैं और इन्द्रधनुष तथा विद्युत् के तुल्य चपल हैं ॥३॥ देव, असुर, विद्याधरचक्रवर्ती इत्यादि सभी को काल समाप्त कर देता है, जैसे सिंह मृग को नष्ट कर देता है । मणि, मंत्र, तंत्र आदि सभी प्रकार के उपाय मृत्युवशीकृत प्राणी की रक्षा नहीं कर सकते ॥४॥ जीव (कर्मपरिणाम से) चारों गतियों में (नर-सुर-तिर्यक्-नारक पर्यायों में) दुःख से आक्रान्त हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव-रूप पंच परिवर्तन करते रहते हैं । यह संसार सब प्रकार से सारविहीन है और इसमें लेशमात्र भी सुख नहीं है ॥५॥ जितने कर्मपरिणामजन्य शुभ अथवा अशुभ फल हैं उन्हें यह जीव अकेला ही भोगता है । उस भोग में पुत्र-स्त्री आदि कोई भी साथी (सहभोक्ता) नहीं होते । वास्तव में ये सभी स्वार्थ के मित्र हैं ॥६॥ जल और दूध के समान शरीर और जीवात्मा का मेल हो रहा है परन्तु वास्तव में अभिन्न प्रतीत होते हुए भी दोनों पृथक्-पृथक् हैं । तब

स्पष्ट—रूप से अलग दिखायी देनेवाले वन, गृह, पुत्र और भार्या आदि आत्मा के साथ एक कैसे हो सकते हैं ॥७॥ प्राणियों का यह शरीर मांस, रुधिर, राध, मल इत्यादि जुगुप्सोत्पादक स्रावों की शैली है। यह अस्थि और मज्जा आदि से मलिन है। इसके नव द्वार मल-मूत्रादि वृणित वस्तुओं के प्रवाह-पथ हैं। ऐसे शरीर से मित्रता कैसी? ॥८॥ हे भाई! मन, वचन और काय की चंचलता से आत्मव (कर्मों का आगमन) होता है। ये आत्मव घनीभूत दुःखों के कारण हैं। बुद्धिमान् इन्हें निवृत्त (समाप्त) करने का यत्न करते हैं ॥९॥ जिन्होंने पुण्य-पाप नहीं किये हैं और निरन्तर आत्मानुभव में ही चित्त लगाया है उन्होंने ही आते हुए कर्मों का निरोध कर संवर—मुख का अवलोकन किया है ॥१०॥ अपना काल पाकर जो कर्म शर जाते हैं, उतने से अपना (शिवसिद्धि रूप) वाञ्छित कार्य नहीं हो सकता है। उसके लिए तपस्या करके कर्मक्षय करना आवश्यक है। जो तपद्वारा कर्मनिर्जरा करते हैं उन्हें ही शिवसुख के दर्शन होते हैं ॥११॥ इस लोक को न किसीने बनाया है और न कोई इसे धारण किये हुए है। यह तो अनादिकाल से जीव, पुद्गल, धर्म, अगम, आकाश और काल इन छह द्रव्यों से भरा हुआ है। इसका कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसे इस लोक में यह जीव समता के अभाव में नाना योनियों में घूम रहा है ॥१२॥ इस जीव ने तो शीवक तक जा-जाकर अनन्त वार वहाँ का अहमिन्द्र पद प्राप्त किया परन्तु सम्यग्ज्ञान नहीं हुआ। उस सम्यग्ज्ञान को चरित्रशील

मुनियों ने आत्मा में साधन किया है ॥१३॥ सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं पंच-  
महाव्रत इत्यादि सब धर्मरूप हैं और मोहभाव से अलग हैं । प्राणी जब इस धर्म को  
धारण करता है तब ही उसे अविचल (शाश्वत) सुख की प्राप्ति होती है ॥१४॥  
उस धर्म को त्यागी मुनि समग्रता से पालते हैं । मुनियों की उन क्रियाओं का वर्णन  
आगे किया जा रहा है । हे भव्य ! उन्हें सुनकर अपने अनुभव की पहचान  
करो ॥१५॥



करो ॥१५॥



## श्री भगवान् पाद्वर्नाथ की स्तुति

तुम से लागी लगन, ले लो अपनी चरण ।  
पारस प्यारा, भेटो भेटो जी संकट हमारा ॥६॥  
निश दिन तुम्ह को जपूँ, पर से नेहा तजूँ ।  
जीवन सारा, तेरे चरणों में ब्रिते हमारा ॥१॥  
अश्वसेन के राजदुलारे, वामादेवी के सुत प्राण प्यारे ।  
सब से नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा; संयम धारा ॥२॥  
इन्द्र और धरणेन्द्र भी आये, देवी पद्मावती मंगल गये ।  
आशा पूरो सदा, दुःख नहीं पावे कदा, सेवक धारा ॥३॥  
जग के दुःख की तो परवा नहीं है, स्वर्ग-सुख की भी चाह नहीं है ।  
भेटो जामन-मरण, होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा ॥४॥  
लाखों बार तुम्हें शीघ्र नवाऊँ, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊँ ।  
'पंकज' व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा ॥५॥





